



सत्यमेव जयते



राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी National Testing Agency

Excellence in Assessment

(उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन)

(An Autonomous Organization under the Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India)

सार्वजनिक सूचना
14 फरवरी 2023

विषय: संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) - 2023 सत्र 2 - के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के सम्बन्ध में...

सार्वजनिक सूचना दिनांक 15 दिसंबर 2022 की निरंतरता में, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) - 2023 सत्र 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर रही है। उससे संबंधित सारणी निम्नांकित है:

परीक्षा / सत्र	परीक्षा की तिथियाँ	ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना	आवेदन शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि ऑनलाइन
जे ई ई (मुख्य) - 2023 सत्र 2	06, 08, 10, 11, एवं 12 अप्रैल 2023 (संरक्षित तिथियाँ - 13, 15 अप्रैल 2023)	14 फरवरी से 12 मार्च 2023 (रात्रि 09:00 बजे तक)	12 मार्च 2023 (रात्रि 11:50 बजे तक)

परीक्षा शहर की अग्रिम सूचना, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परिणाम की घोषणा की तारीखें नियत समय में जेईई (मुख्य) पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएंगी।

जिन अभ्यर्थियों ने जेईई (मुख्य) - 2023 सत्र 1 के लिए परीक्षा शुल्क का आवेदन किया है और सफलतापूर्वक भुगतान किया है और जेईई (मुख्य) - 2023 सत्र 2 के लिए उपस्थित होना चाहते हैं, उन्हें सत्र 1 में प्रदान किए गए अपने पिछले आवेदन संख्या और पासवर्ड के साथ लॉग इन करना आवश्यक है। वे केवल पेपर, परीक्षा का माध्यम, पात्रता का राज्य कोड, और सत्र 2 के लिए शहर चुन सकते हैं और परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

अभ्यर्थियों को एक से अधिक आवेदन पत्र भरने की अनुमति नहीं है। एक से अधिक आवेदन संख्या वाले किसी भी अभ्यर्थी को यूएफएम (अनुचित साधन) के रूप में माना जाएगा, भले ही बाद के चरण में पाया जाए, और उस अभ्यर्थी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिन अभ्यर्थियों ने पहले से ही सत्र 1 के लिए पंजीकरण किया है, उन्हें फिर से पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन नहीं किया है, उन्हें दिए गए शेड्यूल के अनुसार नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता है। विवरण के लिए, उम्मीदवार अनुलग्नक 1 का उल्लेख कर सकते हैं।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए एनटीए (www.nta.ac.in) और (<https://jeemain.nta.nic.in/>) की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाते रहें।

जेईई (मुख्य) - 2023 से संबंधित अधिक स्पष्टीकरण के लिए, अभ्यर्थी 011- 40759000 / 011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं या jeemain@nta.ac.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

J. Parashar

(डॉ साधना पाराशर)
वरिष्ठ निदेशक (परीक्षा)



सम्पर्क सूत्र / Helpline Number: +91-11-40759000, e-mail: jeemain@nta.nic.in
वेबसाइट / Website www.nta.ac.in, <https://jeemain.nta.nic.in/>





सत्यमेव जयते



राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी National Testing Agency

Excellence in Assessment

(उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन)

(An Autonomous Organization under the Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India)

अनुलग्नक 1

1.	मौजूदा उम्मीदवार यानी सत्र 1 के लिए पंजीकृत उम्मीदवार और भुगतान शुल्क पर सत्र 2 के लिए विचार किया जाएगा	सत्र 1 में पहले से पंजीकृत उम्मीदवार यानी सत्र 2 के लिए मौजूदा उम्मीदवार : उम्मीदवारोंको निम्नलिखित का विकल्प चुनने की अनुमति है : <ol style="list-style-type: none">1. कोर्स (पेपर)2. प्रश्न पत्र का माध्यम3. परीक्षा शहर4. पात्रता का राज्य कोड5. शुल्क भुगतान
2.	नए उम्मीदवारों के लिए, सत्र 2 में पंजीकरण और आवेदनफॉर्म भरने की प्रक्रिया वही रहेगी जो सत्र 1 में पालन की गई थी।	सत्र 2 में नए उम्मीदवारों के लिए यानी सत्र 1 के लिए भुगतान नहीं किए गए शुल्क सहित पंजीकृत नहीं : पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया वही रहेगी जो सत्र 1 के लिए पालन की जाती है।